

प्रखर

पाठ 14

विराम चिन्ह

3. तुम कब आए

4. तुमने खाना खा लिया है

5. चलो बैठ जाओ

6. मैं बाजार जाऊँगा

7. वहाँ कौन है

8. रवि रमेश और विवेक कल आएँगे

(ग) दिए गए विराम-चिह्नों का प्रयोग करते हुए दो-दो वाक्य बनाओ।

1. । मेने खाना खा लिया है।
आज रविवार है।

2. ?

3. ,

(घ) दिए गए वाक्यों में लगे गलत विराम-चिह्नों को हटाओ और सही विराम-चिह्न लगाकर फिर से लिखो।

1. तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है?

2. मुझे खाना खाना है?

3. चलो। चलकर खेलें,

4. क्या यह तुम्हारा भाई है।

5. लगता है आज वर्षा होगी?

6. दरवाजे पर कौन खड़ा है।

दिए गए गृह कार्य को अपनी प्रखर पुस्तक में ही करें।